



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कंपनी सचिवालय

दिनांक: - 04.08.2020

सं. :1:05:126 (3):1:CS

कार्यालय आदेश सं. CS/No.05/ITC/2020

विषय: - ट्रेडिंग विंडो खुलने संबंधी

संदर्भ.: दिनांक 29 जून 2020 का कार्यालय आदेश सं. CS/No.04/ITC/2020

कंपनी सचिवालय यूनिट के दिनांक जून 29, 2019 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित अनुसार, "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता" ('संहिता') की शर्तों के अनुसार, पीएफसी के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग विंडो दिनांक जुलाई 1, 2020 से दिनांक 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा के पश्चात अड़तालिस (48) घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी।

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि पीएफसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की 403वीं बैठक बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें जून 30, 2020 को समाप्त अवधि एवं तिमाही के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) को मंजूरी दी जाएगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी के इक्विटी शेयरों/ सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग विंडो शनिवार, अगस्त 15, 2020 तक बंद रहेगी एवं अगस्त 16, 2020 से खुल जाएगी। अतः सभी निर्धारित कार्मिकों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान पीएफसी के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों सहित कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेड न करें।

(मनोहर बलवानी)

मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव एवं कोड हेतु
अनुपालन अधिकारी

प्रति:-

सभी संबंधित व्यक्ति ("पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता" के 'संहिता' में यथापरिभाषित) -
कंपनी के नोटिस बोर्ड/ कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से

प्रति:

1. कंपनी सचिव, पीएफसीसीएल
2. कंपनी सचिव, आरईसीएल

-- अपने संबंधित संगठनों में संबंधित के लिए अधिसूचना हेतु